



UNITED LEASING & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Plot No. 66, Sector-34, EHTP, Gurgaon-122001 (Haryana)
E-mail id : teamunited83@gmail.com, website : www.uliltd.com
CIN : L17100HR1983PLC033460

The Dy. Manager,
BSE Limited,
Listing Compliance,
25th Floor, P.J. Towers,
Fort, Dalal Street,
Mumbai-400001

Ref: Script Code: 507808

Subject: Newspaper advertisement regarding publishing of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2023.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith copies of Advertisements published in Pioneer (English Language newspaper) and Pioneer (Hindi Language Newspaper) on Sunday, 19th day of November, 2023 disclosing the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2023.

This is for your information and record.

Thanking You,
For **UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED**

HARISH RAWAT
(Director & CFO)
DIN: 06918651

Digitally
signed by
Harish Rawat
Date:
2023.11.23
14:58:31
+05'30'

IMF revises Pak's foreign loan requirement to USD 25 bn

PTI ■ ISLAMABAD
 The IMF has revised down Pakistan's foreign loan requirements to USD 25 billion for the ongoing fiscal year -- reducing it by USD 3.4 billion in a big relief for its cash-starved economy, according to a media report on Saturday.
 The Washington-based global lender also lowered the economic growth projection to just 2 per cent, turning down the government's external as well as macroeconomic forecasts. The Express Tribune newspaper reported.
 The International Monetary Fund's delegation wrapped two-week-long talks with Pakistani officials on November 15 and announced that a staff-level agreement has been reached to enable it to release USD 700 million in the second tranche of an already agreed USD 3 billion loan.
 The report said that in comparison with July this year,

the IMF lowered the foreign loan requirements for this fiscal year from USD 28.4 billion to USD 25 billion.
 In four months, the government has already borrowed USD 6 billion while it expects rollovers of USD 12.5 billion.
 The remaining needs are about USD 6.5 billion in addition to the efforts for timely securing the USD 12.5 billion debt rollovers, said the sources.
 Finance Secretary Imdadullah Bosal on Thursday said the interim government was comfortable that it would secure the needed financing to remain afloat.
 However, there will not be much respite for the government as the estimated available financing has also been cut by USD 3.7 billion because of the problems in acquiring loans through floating Eurobonds and from foreign commercial banks.
 The sources said that the IMF did not agree to Pakistan's

projection of USD 4 billion to USD 4.5 billion current account deficit during this fiscal year against the earlier projected figure of USD 6.5 billion.
 They added that the IMF had now projected a deficit of USD 5.7 billion -- a reduction of about USD 770 million in comparison with its old estimates. The finance ministry sources told the newspaper that the IMF had further reduced its economic growth projection for Pakistan to 2 per cent from July's estimate of 2.5 per cent.
 The lender's fresh forecast is now in line with the World Bank and Asian Development Bank's projections. The IMF did not accept Pakistan's forecast of 3 per cent to 3.5 per cent economic growth in this fiscal year.
 The IMF also did not accept the finance ministry's projection of imports worth USD 54.5 billion during this fiscal year. The lender has now

Pakistan, Russia discuss terrorism threats

Islamabad (PTI): Underlining the complexity of the terrorism landscape and the need for continued vigilance, Pakistan and Russia have jointly discussed global and regional terrorist threats, with a particular focus on the situations in their neighbourhood.
 Senior officials of the two countries discussed the issue of combating terrorism at the 10th meeting of the Russia-Pakistan Joint Working Group on Combating International Terrorism and Other Challenges to Security held here on November 16.
 "The two sides discussed at length the global and regional terrorist threats, with a particular focus on the situations in Afghanistan, Central and South Asia, and North Africa. The dialogue underscored the complexity of the terrorism landscape and the need for continued vigilance," a statement from Pakistan's Ministry of Foreign Affairs said.
 The two sides outlined their respective national strategies and measures in combating terrorism. Pakistan and Russia shared their experiences and best practices, highlighting the importance of national efforts in the broader fight against terrorism, it said. The meeting was co-chaired by Ambassador Syed Haider Shah, Additional Foreign Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Pakistan, and Ambassador Sergey Vershinin, Deputy Foreign Minister of the Russian Federation.

estimated it at USD 58.4 billion, but its revised figure is USD 6.3 billion less than what it estimated in July this year.
 Some of the gains that Pakistan will make because of the low imports are expected to be lost because of a reduction in the projected remittances. As against the old forecast of USD 32.9 billion, the IMF has now projected the foreign remittances at USD 29.4 billion -- a reduction of USD 3.5 billion, the sources revealed.
 The exports have been marginally adjusted downwards to USD 30.6 billion, they added. The estimates of foreign direct investment also increased from USD 173 million to USD 700 million.
 The IMF also has cut the inflation rate forecast from 25.9 per cent to 22.8 per cent -- a move that should provide space for lowering the interest rates at least in January's monetary policy announcement, according to the paper.

KPK to launch major eviction operation against Afghans

PTI ■ PESHAWAR
 Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa government has decided to launch a major operation to evict thousands of illegal Afghans from the provincial capital Peshawar, a senior official said on Saturday.
 The move by the Khyber Pakhtunkhwa (KPK) government came amid the ongoing deportation of illegal Afghan nationals residing in Pakistan. The crackdown has so far forced about 340,000 Afghans in recent weeks to leave Pakistan after spending years in the neighbouring country.
 "The KPK Provincial Government has decided to launch a grand operation for the eviction of illegal Afghans from this northwestern city of Peshawar," said the official.
 Pakistan's caretaker government has previously said security concerns were behind the deportation order. Islamabad has claimed that Afghan nationals had carried out 14 of the 24 major terrorist attacks that have taken place in the country this year. However, the Taliban-led government in Kabul has rejected Pakistan's claim.
 On Friday, a joint meeting of Deputy Commissioner Peshawar Fahd Wazir and Senior Superintendent of Police of Operations department in Peshawar Kashif Abbasi chaired a special meeting to discuss the issue and made a foolproof plan for evictions of the illegal Afghans.
 The Peshawar district Administration and police set up special teams under the supervision of divisional SPs to evict the illegal Afghans from the Provincial capital Peshawar.
 The special teams have been provided with complete lists and data on the illegal

Afghans residing in Peshawar. The teams would arrest Afghan nationals without documents and would shift them to Juma Khan Holding Camp Nasir Bagh from where they would be deported to their country via the Torkham border.
 According to officials, the Afghans holding Proof of Registration and Afghan Citizen Cards have been exempted from deportation and special teams have been formed for verification of their documents.
 Many Afghans who have been in Pakistan for decades say they should be given more time, as they have no home in Afghanistan. Afghans say they do not know how they will start a new life from scratch.
 An estimated 1.7 million Afghans were living in Pakistan illegally when the crackdown was launched last month by the government.
 Afghanistan has set up a commission in Kabul to deal with repatriations from Pakistan. Bilal Karimi, the spokesman for the refugee commission of Afghanistan's Taliban-led administration, said so far 340,608 Afghans have returned.
 Currently, the World Health Organisation is providing health facilities to Afghans returning through the border crossings at Torkham in northwestern Pakistan and Chaman in the southwest.
 In a statement on Thursday, the WHO said the "sudden and increased flux of such returnees, along with other related factors, poses significant public health concerns".
 It also warned of the risk of disease outbreaks and transmission of wild poliovirus at the points where Afghans are entering the country.

Jinping's special envoy meets new Maldivian President

PTI ■ BEIJING/MALE
 Chinese President Xi Jinping's Special Envoy Shen Yiqin, who attended the inauguration of the new Maldivian President Mohamed Muizzu at Male, called on him on Saturday and expressed Beijing's readiness to promote the Belt and Road Initiative projects and push for new progress in the bilateral ties.
 During the meeting Shen, a State Councillor, said China attaches great importance to its relations with the Maldives and is willing to work with the country under the new circumstances to strengthen high-level political guidance, deepen synergy of their development strategies, and further expand cooperation and

exchanges in various fields, state-run Xinhua news agency reported from Male.
 China is also ready to promote high-quality Belt and Road Initiative (BRI) cooperation, and push for new progress in the future-oriented, all-round friendly and cooperative partnership between the two countries, she added.
 Muizzu said the new government of the Maldives firmly upholds the one-China policy and actively seeks to strengthen practical cooperation with China in various fields, including jointly building the BRI.
 The BRI is an ambitious plan initiated by President Xi in 2013 to develop new trade routes connecting China with the rest of the

world via land and maritime networks with the aim of improving regional integration, increasing trade and stimulating economic growth.
 Muizzu hoped to work hand in hand with China to usher in a new chapter in Maldives-China relations.
 The election of Muizzu, seen as a close associate of former pro-China Maldives President Abdulla Yameen, raised expectations in Beijing that the archipelagic state strategically located in the Indian Ocean close to India's southern coast will pursue pro-Beijing policies, unlike the incumbent Ibrahim Mohamed Solih, who followed India first policy and established close ties with New Delhi.
 In his message greeting Muizzu earlier, Xi said China and the Maldives enjoy a long history of friendly exchanges.
 Xi -- who visited Maldives in 2014 and announced several Chinese investments under China's BRI, which subsequently evoked criticism of being "debt traps" by the country's opposition parties -- said the two countries are not only friends of sincere trust and mutual assistance but also partners of joint development and common prosperity.
 After her Maldives visit, Shen will visit Sri Lanka from November 18 to 21 at the invitation of the Sri Lankan government, the Chinese Foreign Ministry announced earlier.

Chinese man extradited from Morocco to face embezzlement

Beijing (AP): A Chinese man wanted for allegedly embezzling millions of yuan (hundreds of thousands of dollars) from his company and then fleeing to Morocco was extradited back to China on Saturday, the Ministry of Public Security said.
 The man, a financial executive at the company, used passwords for its bank accounts to transfer money to his personal account, the ministry said in a statement. It didn't name the company but said that Shanghai police filed a case against the man in February 2020.
 Moroccan police arrested him in April of this year and a court approved his extradition in late October. Chinese officials brought him back to Shanghai on Saturday.
 State broadcaster CCTV showed the man, identified only by his surname Luo, signing an arrest warrant after getting off the plane and then being handcuffed. Police officers led him from the jetway to the tarmac and to a waiting police car.

Four charged with murder of Sikh teen in London

PTI ■ LONDON
 Four men arrested on suspicion of the murder of a British Sikh teenager following a street fight in south-west London have been charged to appear before the city's Westminster Magistrates' Court on Saturday.
 Amanpreet Singh, 21, Manjit Singh, 27, Ajmeer Singh, 31, and Poran Singh, 71 -- British Sikhs from the Southall suburb of London -- were charged with the murder of 17-year-old Simarjeet Singh Nangpal by the Metropolitan Police overnight on Friday.
 Police were called to reports of a fight in progress at Burket Close, Hounslow, and attended along with the London Ambulance Service in the early hours of Wednesday.
 Nangpal, from the local area, was found with stab injuries and "despite the best efforts of the emergency services, he was sadly pronounced dead at the scene."
 "We are working around the clock to find those responsible for Simarjeet's murder, as his family struggle to come to terms with their loss," said Detective Inspector Martin Thorpe of the Met Police in an earlier statement.
 "Four men have been arrested and our enquiries continue. I would urge anyone with information about how the events unfolded or anyone who may have captured the incident on their phone, dash cameras or doorbell footage to please come forward," he said.
 The victim's family were supported by specialist officers from the force.

Kamala Harris holds critical conversations at APEC

PTI ■ SAN FRANCISCO
 Vice President Kamala Harris held critical conversations with world leaders at the APEC Summit here primarily focusing on women's economic empowerment, inclusive growth, and strengthening bilateral ties.
 After President Joe Biden, she has emerged as the most influential foreign policy voice of the United States and her conversations are focused on humane voices, the White House said.
 Addressing the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council meeting, Harris, 59, announced more than USD 900 million in public and private sector investment towards an innovative initiative to bolster women's economic empowerment around the world, it said. This week's events followed her 14th foreign trip as she has visited 20 countries to strengthen America's alliances and partnerships. Speaking at the Women's Economic Participation in the Industries of the Future event, Harris launched the Women in the Sustainable Economy Initiative.
 As part of this launch, she announced more than USD 900 million in commitments by governments, private sector companies, foundations, and civil society to bolster women's economic participation.
 This innovative programme will bolster women's economic empowerment globally by expanding access to employment, training, leadership roles, and financial resources in the industries critical to our future and the future of our planet, it said.
 The announcements in Accra, Ghana of USD 1 billion

in public and private sector commitments will help close the digital gender divide. In the last eight months, her leadership has generated more than USD 2.4 billion to empower women economically around the world, the White House said.
 During the APEC Leadership Summit, Harris held timely and productive conversations with a hoist of world leaders. This includes a meeting with President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines -- their fifth meeting in the past year.
 The two leaders committed to continuing to work together to promote a free and open Indo-Pacific and continued their work together to defend international rules and norms in the South China Sea. They also discussed strengthening economic ties, it said.
 Harris announced the conclusion of a historic "123" civil nuclear cooperation agreement, which will deepen the US-Philippines partnership to build a global clean energy economy and strengthen their shared commitment to improving energy security and advancing the global non-proliferation regime.
 Harris announced the launch of the "123" agreement negotiations while in Manila in November 2022.
 This agreement will provide the legal basis for US exports of nuclear equipment and material to the Philippines, which will support American workers and businesses, the White House said.
 The Vice President also met with Prime Minister James Marape of Papua New Guinea, as part of the Biden-Harris Administration's commitment to the Pacific Islands region.

Liberian president concedes defeat

AP ■ MONROVIA
 Liberian President George Weah conceded defeat on Friday after provisional results from this week's runoff vote showed challenger Joseph Boakai beating him by just over a percentage point.
 Elections officials said that with 99.58 per cent of ballots counted from Tuesday's election, Boakai was in the lead, with 50.89 per cent to Weah's 49.11 per cent. The results were a dramatic reversal from the election six years ago when Weah easily beat Boakai in the second round.
 "The Liberian people have spoken and we have heard their voice," Weah said in an address to the nation, adding that Boakai "is in a lead that we cannot surpass."
 "I urge you to follow my example and accept the result of the elections," he said, adding that "our time will come again" in 2029.
 The concession speech given even before official results were announced in Liberia comes at a time when there have been growing concerns about the decline of democracy in West Africa.
 The region has seen a spate of military coups over the last several years, including one earlier this year carried out in Gabon in the aftermath of a presidential election.
 Weah said he had "the utmost respect for the democracy process that has defined our nation."
 The 57-year-old former international soccer star won the 2017 election after his promise to fight poverty and generate infrastructure development.

Ukraine's troops work to advance on Russian-held side

Kyiv (AP): Ukrainian troops worked to push back Russian forces positioned on the east bank of the Dnieper River, the military said Saturday, a day after Ukraine claimed to have secured multiple bridgeheads on that side of the river that divides the country's partially occupied Kherson region.
 Ukraine's establishment of footholds on the Russian-held bank of the Dnieper represents a small but potentially significant strategic advance in the midst of a war largely at a standstill. The General Staff of Ukraine's armed forces said its troops there had repelled 12 attacks by the Russian army between Friday and Saturday.
 The Ukrainians now were trying to "push back Russian army units as far as possible in order to make life easier for the (western) bank of the Kherson region, so

that they get shelled less," Natalia Humeniuk, spokesperson for Ukraine's Southern Operational Command, said.
 In response, the Russian military used "tactical aviation," including Iranian-made Shahed exploding drones, to try to pin down Ukraine's troops, Humeniuk said.
 The wide river is a natural dividing line along the southern battlefield. Since withdrawing from the city of Kherson and retreating across the Dnieper a year ago, Moscow's forces have regularly shelled communities on the Ukrainian-held side of the river to prevent Kyiv's soldiers from advancing toward Russia-annexed Crimea.
 Elsewhere, air defenses shot down 29 out of 38 Shahed drones launched against Ukraine, military officials reported. One of the drones that got through struck an

energy infrastructure facility in the southern Odesa region, leaving 2,000 homes without power.
 In the capital, hundreds of people gathered to oppose corruption and to demand the reallocation of public funds to the armed forces. The demonstration was the 10th in a series of protests in Kyiv amid anger over municipal projects.
 On Saturday, protesters held Ukrainian flags and banners bearing slogans such as "We need drones not stadiums." "I've organized demonstrations in more than 100 cities protesting against corruption in Ukraine and for more money, which should go to the army," Maria Barbash, an activist with the organization Money for the Armed Forces, said. "The first priority of our budget -- local budgets and the central budget -- should be the army."

PUBLIC NOTICE
 My client, Sri. Sarjeet Singh S/o. S.C. Das R/o D-31, Indra Kayan Vihar, (Old Industrial Area, Phase-1), Delhi is purchasing property from Smt. Rajkumari V/o Sh. Vinodra Singh R/o Village Mehraola, Bulandshahr U.P. property bearing Address House No. 7-2503 A, First Floor, Area 23.70 sq. Mtrs., Situated at Mehraola, Bulandshahr, Azadpur, Gharanabad, U.P. the previous Original Document including Registered Deed No. 7927 dated 27.12.2013 executed by Gharanabad Development Authority in favour of Smt. Rajkumari V/o Sh. Vinodra Singh has been Lost and in this regard NCR No. 2023000735189 dated 29.10.2023 has been filed. Above-mentioned property is going to be merged with MFL HOME FINANCE LIMITED. Any person/bank/financial institution having any claim/s right, lien any objection whatsoever in regard to Above property, should notify to the undersigned/Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardooma Court, Delhi-110092 along with documentary evidence under address through registered A/d within 7 days from the date of publication of this notice failing which any claim, lien or objection shall be deemed to have been waived.
 Adv. Vishal Mehan, E-713, Karkardooma Court, Delhi-110092, Mobile no. 9811215181

PUBLIC NOTICE
 Whereas, Late Mr. Blesson George S/o Mr. K.M. George, was the owner of the Residential Flat bearing No. J-13, Second Floor, Nightingale CGHS Limited, Vikas Puri, New Delhi-110018. Whereas, Mr. Blesson George died on 14.06.2017 leaving behind Mrs. Annie George, Mrs. Ruby Thomas and Mr. Nikhil Mathai George as his legal heirs. Whereas, Mrs. Annie George and Mrs. Ruby Thomas released/relinquished their rights and share in the aforesaid property to Mr. Nikhil Mathai George by virtue of a Relinquishment Deed dated 04.05.2022, which is registered with the office of the Sub-Registrar, Delhi as document no. 9634. Whereas, Mr. Nikhil Mathai George became the sole owner of the aforesaid property and he intends to sell the aforesaid property to Mrs. Jaskirat Kaur D/o Mr. Triochan Singh and Mr. Basant Nayak S/o Mr. Japant Nayak. Any person who has any objection regarding the Sale of the said property by Mr. Nikhil Mathai George, may submit his/her objection within 7 days from the date of the Notice in writing. The said objection may be kindly sent to the undersigned by way of the Registered Post on the address given below and by E-mail.
 Priyanka Gaur (Advocate)
 Trinity Legal Partners
 C-401, Fourth Floor, Nirvana Courtyard, Nirvana Country, Sector-50, Gurugram-122018
 E: priyankagaur@trinitylegalpartners.com

ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED			
CIN: L74899DL1976PLC008036			
Regd. Office: Unit No 8, Ground Floor, Pocket M, Sarita Vihar, New Delhi 110076			
Telephone: 011-47366600 E-mail: info@rotoindia.co.in Website: www.rotoindia.co.in			
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2023			
(In Lakhs)			
Particulars	Quarter Ended 30.09.2023	Half year Ended 30.09.2023	Quarter Ended 30.09.2022
	Un-audited	Un-audited	Unaudited
Total Income from Operations (Net)	1.27	40.76	1.27
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(2.14)	(1.17)	(1.46)
Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(2.14)	(1.17)	(1.46)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(2.14)	(1.17)	(1.46)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(2.14)	(1.17)	(1.46)
Equity Share Capital	360.13	360.13	360.13
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) Basic and diluted (not annualised)	(0.06)	(0.03)	(0.04)

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The full format of Quarterly financial Results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and Company's Website at www.rotoindia.co.in.
 2. The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (IND AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016.
 3. The above unaudited financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the board of Directors at their meeting held on 17.11.2023.

For Rotographics (India) Limited
Sakshi Jain
Company Secretary

UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : PLOT NO.66, SECTOR-34, EHTP, GURUGRAM, HARYANA-122001
 CIN : L17100HR1983PLC033460, Website: www.ulilttd.com, Email id: investorrelations@ulilttd.com, Phone: 011-2628237, 49075251

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

Sl. No.	Particulars (Refer Notes below)	(Rs. In lacs, except per share data)					
		Quarter Ended		Six Months Ended		Year Ended	
		30.09.2023 [Unaudited]	30.06.2023 [Unaudited]	30.09.2022 [Unaudited]	30.09.2022 [Unaudited]		31.03.2023 [Audited]
1	Total Income from Operations	158.01	124.41	53.61	282.42	490.32	1,047.44
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional & extraordinary items	5.32	13.79	8.62	19.11	46.21	55.59
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax and exceptional & extraordinary items	5.32	13.79	8.62	19.11	34.66	43.00
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	5.32	13.79	8.62	19.11	34.66	43.00
5	Total Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
6	Paid-up equity share capital	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earning Per Share of Rs.10/- each (not annualised)						
	a) Basic	0.18	0.46	0.29	0.64	1.16	1.43
	b) Diluted	0.18	0.46	0.29	0.64	1.16	1.43

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023 are available on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.ulilttd.com.

For UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED
Sd/ HARISH RAWAT
(Director)
DIN : 06918651

Place : Gurugram, Haryana
Dated : November 17, 2023